





## शपथ-पत्र

समक्ष:-

श्रीमान् रजिस्ट्रार जरनल

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।



शपथपत्र ओर से आमोद कंट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बिजनौर (आई.डी. नंबर यू.पी.2245) उ0प्र0।

- 1- यह कि मैं आमोद कंट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजनौर शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरे पिताजी श्री कौशलेन्द्र यादव जी की प्रोस्ट्रेट कैंसर से संबंधित चिकित्सा के लिए यशोदा हास्पिटल गाजियाबाद एवं अपोलो हास्पिटल नई दिल्ली सम्पर्क किया गया जहां उनके उपचार के लिए अपोलो अस्पताल नई दिल्ली में उनकी शल्य चिकित्सा एवं रेडिएशन थैरपी कराये जाने के लिए परामर्श दिया गया।
- 2- यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मैं अपने पिताजी श्री कौशलेन्द्र यादव जी का उपचार अपोलो हास्पिटल नई दिल्ली एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से कराये जाने का इच्छुक हूं।
- 3- यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि शपथपत्र का पैरा सं0 1 व 2 मेरे निजी ज्ञान में है तथा सत्य है।

दिनांक 28-02-24

शपथकर्ता

28/02/2024  
28/2/2024  
मैंने आपको आज के दिन 20...  
आमोद कंट  
Deepak Kumar  
कुमार जोशी  
एडवोकेट  
सिविल कोर्ट, नगीना  
फोन नं०-15576/99  
मो०-9837686271  
OpNo-108991/18  
Nargis Jahan  
Notary, Najina  
Distt. Bijnor (U.P.)

28/2/24

28/2/24